


IMC

ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स



सामग्री

कलौंजी का तेल

रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमणों से बचाता है।

अदरक का तेल

यह एंटी-इंफ्लेमेटरी है, यह पेट और मोशन सिकनेस (उलटी आना, चक्कर आना या घबराहट इत्यादि) को भी कम करता है।

लहसुन का तेल

यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटी फंगल है और इसमें एंटी वायरल गुण भी मौजूद हैं।

लाभ

- यह रोग-प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक है।
- हृदय को स्वस्थ रखने और हीट स्ट्रोक से बचाने में सहायक है। मधुमेह, रक्तचाप और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करने में सहायक है।
- जोड़ों में दर्द, गठिया, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से राहत पहुंचाने में सहायक है।
- यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध के उत्पादन में सहायक है। इसे अल्जाइमर और डेमेशिया जैसी मानसिक बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए भी जाना जाता है।

इस्तेमाल करने की विधि

- एक कैप्सूल नाश्ते के बाद और एक टेबलेट शाम को पानी या दूध के साथ लें या फिर चिकित्सक की सलाह के मुताबिक लें।
- जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द, गले में दर्द होने पर कैप्सूल को काटकर उसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं।
- या कैप्सूल को काटकर एलो जैल के साथ मिला लें और चेहरे पर लगाएं। इससे कील-मुहांसों, दाग-धब्बों या त्वचा पर अन्य प्रकार के काले-धब्बों को दूर करने में मदद मिलती है और आपकी त्वचा भी दमकती है।
- दांत संबंधी समस्याओं जैसे मसूड़ों में सूजन या खून आने पर भी कैप्सूल को काटकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

प्रॉडक्ट पैकिंग

प्रॉडक्ट कोड : 1119701

नेट : 30 कैप्सूल्स

एम.आर.पी : 570 /—

एसोसियेट डिटेल्स

एसोसियेट नाम.....

एसोसियेट आई.डी.....

एसोसियेट संपर्क नं.....



आई.एम.सी. हैड ऑफिस

इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि.,

श्री गुरु नानक देव भवन, भारत नगर चौक, लुधियाना 141001

info@imcbusiness.com www.imcbusiness.com

Toll Free No. 1800-137-0098

ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स तीन खास तेलों का मिश्रण है— कलौंजी का तेल, लहसुन और अदरक का तेल और यह ऊर्जा का एवं रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रभावशाली जरिया है। यह पाचन, यौन एवं तनाव और एकाग्रता संबंधी समस्याओं में मददगार साबित होता है। यह कैप्सूल शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और आपको जीवन भर स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हैं। अल्जाइमर और डेमेशिया जैसी मानसिक बीमारियों के खतरे को कम करने और संपूर्ण सेहत सुनिश्चित करने में सहायक है।